

Schedule XLV-Form No. 134

M.B.H - 1224

R.W.D, works Dir. - Bagaha - I **DIVISION**

SUB-DIVISION

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है। 145 मार्ग
पर्वीन हारा टंकित द्रू 30 सं 0- 1 से सहि
है। यह मापीपुस्त सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर, प्रमंडल
कालीन-को निर्देश दिया।

(B.R.
26/6/2)

प. 11 लक्ष अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
ग्रामीण बगहा-1

Revised by Je
Subh Ch.
26/6/2

Schedule PLV-Form No. 134

R.W.D. Bagahad DIVISION
bagahad SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer

SA 357 CHIC

Date of first entry

Date of last entry

Name of work -

Situation of work-

Agency by which work is executed

Date of measurement

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

<u>Measurement</u>	
1	Pv contractors and labour for laying brick bat
	7LS
$1 \times 10.80 \times 3.50 \times 0.55 =$	$20.79 m^3$
$1 \times 3.10 \times 1.50 \times 0.98 =$	$4.41 m^3$
$1 \times 2.10 \times 1.10 \times 0.45 =$	$0.99 m^3$
$1 \times 6.20 \times 3.60 \times 0.28 =$	$6.25 m^3$
$1 \times 1.50 \times 1.12 \times 0.35 =$	$0.59 m^3$
$1 \times 4.10 \times 2.20 \times 0.45 =$	$3.96 m^3$
$1 \times 3.10 \times 1.50 \times 0.38 =$	$1.71 m^3$
$1 \times 22.45 \times 3.25 \times 0.58 =$	$42.32 m^3$
$1 \times 6.20 \times 3.60 \times 0.35 =$	$7.81 m^3$
$1 \times 1.50 \times 1.12 \times 0.35 =$	$0.59 m^3$
$1 \times 3.25 \times 1.50 \times 0.42 =$	$2.05 m^3$
$1 \times 1.10 \times 1.10 \times 0.45 =$	$0.50 m^3$

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

2

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	$1 \times 1.20 \times 0.90 \times 0.25 = 0.27 m^3$				
	$1 \times 1.50 \times 1.12 \times 0.35 = 0.59 m^3$				
	$1 \times 1.40 \times 0.75 \times 0.45 = 0.34 m^3$				
	$1 \times 30.20 \times 1.25 \times 0.65 = 24.38 m^3$				
	$1 \times 2.15 \times 0.75 \times 0.45 = 0.73 m^3$				
	$1 \times 1.50 \times 0.58 \times 0.32 = 0.28 m^3$				
	$1 \times 1.40 \times 0.55 \times 0.35 = 0.19 m^3$				
	$1 \times 1.20 \times 0.90 \times 0.25 = 0.27 m^3$				
	$1 \times 18.68 \times 1.50 \times 0.88 = 24.66 m^3$				
	$1 \times 1.40 \times 0.75 \times 0.45 = 0.34 m^3$				
	$1 \times 15.20 \times 3.10 \times 0.42 = 19.15 m^3$				
	$1 \times 2.15 \times 0.75 \times 0.45 = 0.73 m^3$				
	$1 \times 1.50 \times 0.58 \times 0.32 = 0.28 m^3$				

$1 \times 1.40 \times 0.55 \times 0.35 = 0.19 m^3$
 $164.34 m^3$

(3) Ply filling stitching
 placing Sandbag T/S 224 Nos

JAN 2017
 03/09/2017
 G.F.

Continuation

2
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1	X 1.20	X 0.90	PY 0.25	3.27 m ³

3
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	A	28	Struct	0.58	

(2) P.V Material and Labour for laying brick bau - Tls

164.34 m³ wide page (2)

Rs 2048 = 30/m³ - Rs 336618 = w

(2) P.V Rilling

Stretching Placing

Rs 21 + 15 / each - Rs 4812 = w

Rs 341490 = w

Add 12% GST Rs 40979 = w

Add 1% L.C.S.S Rs 3415 = w

Add 5% - Rs 17079.5 = w

Rs 391863 = w

J.M
S-11

T.E

C.P

(B.M) 251117

E.G

Continuation